



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6, 2007/पौष 16, 1928

No. 4]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6, 2007/PAUSA 16, 1928

वस्त्र मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2006

विषय : केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर

सं. 2/17/2003-डब्ल्यू एंड डब्ल्यूटी.- भारत के राजपत्र,

असाधारण भाग-I, खंड 1 में प्रकाशित भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की संकल्प संख्या 2/17/2003-डब्ल्यू एंड डब्ल्यूटी, दिनांक 6 सितम्बर, 2006 के अनुक्रम में उसमें संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित नाम जोड़ा जाता है और उन्हें केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है :-

26. श्री संग्रामभाई बी. भार्वाड, सदस्य
भार्वाड वास,
दामिलिमडा,
अहमदाबाद-280028

भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

RESOLUTION

New Delhi, the 26th December, 2006

Subject : Central Wool Development Board, Jodhpur

No. 2/17/2003-W & WT.—In continuation of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Textiles, No. 2/17/2003-W & WT dated 6th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section 1, the following name is added to the Schedule annexed thereto and appoint him as a Non-Official Member of the Central Wool Development Board, Jodhpur :—

26. Shri Sangrambhai B. Bharwad, Member
Bharwad Vas, Damilimda
Ahmedabad-280028

BHUPENDRA SINGH. Jt. Secy.